



DAIRY



Products

Powder Products



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	780/- Rs.
5 kg bag	3450/- Rs.
10 kg bag	6825/- Rs.
20 kg bag	13400/- Rs.

Anfahep

Liver Protective Powder

Composition

Each 10gms. contains
 Choline chloride: 1250 mg
 DL methionine: 250 mg
 L-Lysine: 100 mg
 Inositol: 40 mg
 Biotin: 80 mcg
 Vitamin E: 50 mg
 Vitamin B12 30mcg

Benefits

1. ANFAHEP is a Hepato-Protective formula for General use in all Conditions.

2. Prevents Liver Diseases due to Fat Metabolism and Re-Generates Damaged Hepatocytes.
3. Increases Egg Production and Body Weights.
4. Results in Better FCR and Feed Efficiency.
5. Increases the Fertility and Hatchability in Breeders.
6. As an Adjuvant to Anti-Biotic Therapy for Early Recovery of Ailing Birds.

Usage & Administration

Regular Use: 10-30gm/Animal/Day
 Through Feed: 1kg /ton of Feed
 Or as Directed by Veterinarian/
 Consultant.

(उपयोग करने की विधि)

नियमित उपयोग: 10-30 ग्राम / पशु / दिन
 फ़ीड के माध्यम से: फ़ीड का 1 किग्रा / टन
 या पशु चिकित्सक / सलाहकार द्वारा निर्देशित है।



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	410/- Rs.
5 kg bag	1675/- Rs.
10 kg bag	3300/- Rs.
20 kg bag	6325/- Rs.

ANFATOX

PREMIUM

Composition

MOS
 Bacillus Subtilis
 Propionic Acid
 Benzoic Acid
 Acetic Acid
 Sorbic Acid
 Citric Acid
 Activated Charcoal
 Liver Extract
 HSCAS
 Silicon Dioxide

Benefits

For Management of Toxins as a Toxin Binder to Control Broad Spectrum of Moulds and Toxins in Feed.
 High Efficacy towards Polar and non Polar Mycotoxins.
 Effectively Prevents Mould Growth in the Feed.
 Improves liver Function and Prevent fatty liver Syndrome.
 Selectively Absorbs Toxins and does not Absorbs Vitamins & Minerals in Feed.
 MOS helps in removing bad Bacteria by Competitive Exclusion

Usage & Administration

Cow, Buffalo, Camel, Horse:
 30-40gm/animal/day
 Calf & Heifer:
 15-20gm/ Animal/ Day
 Or as Advised by Veterinarian
 Consultant

(उपयोग करने की विधि)

गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा:
 30-40 ग्राम / पशु / दिन
 बछड़ा और बछिया:
 15-20 ग्राम / पशु / दिन
 या पशुचिकित्सा सलाहकार द्वारा सलाह दी जाती है।

Anfazyme

Premium

Enzymes and Probiotics Water Soluble



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	460/- Rs.
5 kg bag	1885/- Rs.
10 kg bag	3700/- Rs.
20 kg bag	7125/- Rs.

Composition

Enzymes:
 Pectinase
 Fungal Alpha Amylase
 Cellulase Acid
 Beta Glucoamylase
 Xylanase
 Phytase Acid with Side Activity of Cellulase, Xylanase, Beta Glucoamylase
 Glucanase
 Protease
 Lipase
 Beta Glucanase
Probiotics:
 Lactobacillus Acidophilus
 Saccharomyces Boulardii
 Bacillus Subtillis

Benefits

1. Controls the Feed Cost by Providing Flexibility in the Feed Formula.
2. Improves Feed Efficiency.
3. Improves Flock & Production Uniformity
4. Reduces Sticky and Loose Droppings Hence Controls Risk of Dirty Eggs, Breast Blisters etc.
5. Improves the Dietary Content of Metabolisable Energy.
6. Improves FCR and Growth
7. Improves Litter Quality

Usage & Administration

Dairy Cattle: 1-3kg./ton feed.
Beef Cattle: 2-4 kg/ton feed.
Goat & Sheep: 1-2kg kg/ton feed.
Goat kid & Lamb: 500gm-1kg/ton feed.
Pigs: 1-4 kg/ton feed

(उपयोग करने की विधि)

दूध देने वाली गाय: 1-3 किलोग्राम / टन फ़ीड।
 बौफ़ गाय: 2-4 किलोग्राम / टन फ़ीड।
 बकरी और भेड़:
 1-2 किलोग्राम किलोग्राम / टन फ़ीड।
 बकरी का बच्चा और मेमने:
 500 ग्राम -1 किलोग्राम / टन फ़ीड।
 सूअर: 1-4 किलो / टन फ़ीड।



Pack Size	M.R.P
1 Kg pouch	1150/- Rs.
5 Kg bag	5325/- Rs.
10 Kg bag	10600/- Rs.
20 Kg bag	20625/- Rs.

Bovi Grow-XL

Protein with essential Amino Acids, Trace Minerals & elements for Better Growth & Production

Composition

Each 100gm bovi grow XL has Nutritional Value of Protein 50gm to Supply Proximate Content of Essential Amino Acids, Chelated Minerals & Trace elements as.

Cystine	0.464 g	Fat	22.64 mg
Histidine	0.609 g	Leucine	1.967 g
Isoleucine	1.232 g	Lysine	1.603 g
Tyrosine	1.232 g	Valine	1.357 g
Threonine	1.232 g	Chloride	1028 mg
Tryptophan	1.063 g	Sodium	667 mg
Methionine	0.289 g	Zinc	2.23 mg
Phenylalanine	0.521 g	Iro	6.66 mg
Potassium	1.281 g	Cobalt	1.34 mg
Magnesium	223 mg	Papain	333 mg
Manganese	556 mg	Copper	1.33 mg
Yeast Extract	5.56 mg	Serine	0.751 g
Arginine	667 mg	Glycine	0.349 g
Total Nitrogen	568 g	Kcal	313.0
Total Energy	4.117 g		
Immunoglobulin	500mg		

Benefits

1. Immunoglobulins to Improve Immunity.
2. Effective In Vitamins Deficiency And Malnutrition.
3. Reduce Mortalities.
4. Nutritionally Essential Amino Acid.
5. Acts as a Supportive Therapy In The Conditions Like Molting, Anorexia, Fatty Liver, Etc
6. Papain For Digestion of Feed
7. Minerals for better metabolism and tissue building.
8. Yeast extract on fermentation provides amino acids, Vitamin B-complex and enzymes.

Usage & Administration

Cow & Buffalo:
 50-60gm/ Animal/ day
Calf & Heifer:
 25-30gm/ Animal/ day
 Or as Directed By Veterinarian/Consultant

(उपयोग करने की विधि)

गाय और भैंस:
 50-60 ग्राम / प्रति पशु / प्रति दिन
बछड़ा और बछिया:
 25-30 ग्राम / प्रति पशु / प्रति दिन
 यह पशु चिकित्सक / सलाहकार द्वारा निर्देशित है।



Pack Size	M.R.P
1 Kg pouch	320/- Rs.
5 Kg bucket	1890/- Rs.
10 Kg bag	2350/- Rs.
20 Kg bag	4460/- Rs.

Bovitamin Forte

(Multi Vitamins Fortified with Trace Minerals)

Composition

EACH 1KG CONTAINS:
MULTI VITAMINS
 Vitamin A 5000 IU
 Vitamin-D 1000 IU
 Vitamin B1 10.00 mg
 Vitamin B2 10.00 mg
 Vitamin B6 5.00 mg
 Vitamin B12 15.00 mcg
 Vitamin B3 75.00 mg
 Vitamin B5 10.00 mg
 Vitamin C 150.00 mg
 Vitamin E 25.00 mg
 Vitamin H 5.00 mg
 Vitamin B9 5.00 mg
TRACE MINERALS
 Calcium 225 gm
 Cobalt 20.00 mg
 Magnesium 60.00 mg
 Iron 30.00 mg
 Copper 2.00 mg
 Manganese 2.00 mg
 Zinc 2.00 mg
 Potassium 20.00 mg
 Choline Chloride 50.00 mg

Benefits

1. Prevents Vitamins & Minerals Deficiency.
2. Reduce Mortality Ratio.
3. Aids in Maintaining Immunity.
4. Enhances Body Weights & Growth.
5. Helps to Give Better FCR.
6. Gives Quick Relief from the Stress Caused Due to Various Stress Factors.

Usage & Administration

Cow & Buffalo:30-50gm/Animal/day
Calf & Heifer:15-25gm/ Animal/ Day
All Livestock: 1-2kg Per Ton of Feed.
 Or as Directed by Veterinarian/Consultant.

(उपयोग करने की विधि)

गाय और भैंस:
 30-50 ग्राम प्रति पशु / प्रति दिन
बछड़ा और बछिया:
 15-25 ग्राम / प्रति पशु / प्रति दिन
 सभी पशुओं के लिए:
 फ़ीड के 1-2 किग्रा प्रति टन।
 या पशु चिकित्सक / सलाहकार द्वारा निर्देशित है।



Pack Size	M.R.P
300 gm	330/- Rs.
500 gm	520/- Rs.
1 Kg pouch	990/- Rs.
1 kg jar	999/- Rs.

CONCELYTE PRO

Concentrated Electrolyte

Composition

Each 10 gm contains
 Sodium chloride 20 mg
 Potassium chloride 100 mg
 Sodium bicarbonate 75 mg
 Sodium acid phosphate 20 mg
 Sodium citrate 125 mg
 Calcium lactate 25 mg
 Magnesium sulphate 25 mg
 Ascorbic Acid 25 mg
 Lactobacillus spores & Dextrose Q.S

Benefits

1. Maintains the Electrolyte balances by process of neutralization & thus provides Strength.

2. Act as an adjuvant and supportive therapy during anti biotic treatment
3. Re-hydrates the body during summer
4. An ideal Immunity booster.
5. Helps in overcoming stress due heat.
6. Prevents dehydration.
7. Energizes body.
8. Maintains calcium-magnesium level essential for egg shell formation
9. Decreases mortality rate due to heat stress.
10. Increases performance and production

Usage & Administration

Cow & Buffalo:10-20gm/Animal/Day
Calf & Heifer:5-10gm/ Animal/ Day
 Or as Advised by Veterinarian consultant.

(उपयोग करने की विधि)

गाय और भैंस:
 10-20 ग्राम प्रति पशु / प्रति दिन
बछड़ा और बछिया:
 5-10 ग्राम / प्रति पशु / प्रति दिन
 या पशु चिकित्सक / सलाहकार द्वारा निर्देशित है।

Lactomed

Non Hormonal Milk Enhancer



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	770/- Rs.
5 kg bucket	5310/- Rs.
10 kg bag	6875/- Rs.
20 kg bag	11500/- Rs.

Composition

Each 1 kg contains	
Bypass fat	600 gm
Calcium	150 gm
Sacchromycese Cervisiae	10 gm
Herbal Galactogoue	100 gm
Herbal Extracts	22 gm
Inert Carrier Q.S to	1 kg

Benefits

Ideal For Lactating and Transition(dry) Animals.
Enhances Milk Production in Early Lactating Animals.
Fulfills the Nutrient Requirement in High Performance Animals.
Delivers Energy During Less than Optimum Conditions(Stress,Heat,Mud,Cold Crowding).

Higher Peak in Overall Milk Production and Aids in Maintaining Milk Fat.
Reproductive Performance Can be Enhanced Because the Cow can Return to Positive Energybalance Sooner which can Affect Follicle Size Ovum Fertility, Circulating Blood, and Progesterone Levels.
Faster Recoveries for Calves.
Decrease in Metabolic Complications Such as ketosis, Acidosis, Milk Fever, Optimal Nutrients Absorption for Animals.
Improves Appetite
Contains no Thyroprotein or Other Hormones

Usage & Administration

Cow & Buffalo:-
Through feed:- 2-3 Kg Per ton Feed.
Daily:- 50-60 gm

For Better Performance of Feed/Based on Feed in-take of Cattle/Goat & Sheep with Respect to Age or Advised by Veterinarian.

(उपयोग करने की विधि)

गाय और भैंस:

फ़ीड के माध्यम से:

2-3 किलोग्राम प्रति टन फ़ीड।

दैनिक:

50-60 ग्राम

फ़ीड / बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मवेशी / बकरी और भेड़ के साथ फ़ीड में पशु चिकित्सक द्वारा उम्र या सलाह का सम्मान



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	390/- Rs.
1 kg jar	550/- Rs.
5 kg bucket	2050/- Rs.
10 kg bag	3075/- Rs.
20 kg bag	6000/- Rs.

Composition

Calcium:	250 gms.
Phosphorus:	125 gms.
Vitamin D3:	1,20,000 I.U.
Magnesium:	20 gms.
Enzyme Complex:	100 gms.
Filler:	Q.S.

Benefits

CATTLE: Enhances Milk Production in Milch Animals & Prevents Milk Fever.
FISHES, GOAT & SHEEP: Helps in Muscular & Skeletal Development. Improves Growth & Body Weight. Enhances Diseases Resistance.

Advantages:

Calcium: Helps in the Skeletal Growth of the Helps to Increase Milk Production Helps to Prevent Milk Fever

Neutro cfd Granules

Usage & Administration

Cattle & Buffaloes: 30-50gm/Animal/ Day
Calf & Heifer: 15-25gm/Animal/ Day
Goat & Sheep: 7-12gm/Animal/Day
Goat kid & Lamb: 3-6gm/Animal/Day
Swine: 5-10gm/Animal/Day
Through Feed: 1-2 kg/ton of feed Or as Advised by Veterinarian Consultant

(उपयोग करने की विधि)

मवेशी और भैंस: 30-50 ग्राम / पशु / दिन
बछड़ा और बछिया: 15-25 ग्राम / पशु / दिन
बकरी और भेड़: 7-12 ग्राम / पशु / दिन
बकरी का बच्चा और मेमने: 3-6 ग्राम / पशु / दिन
सूअर: 5-10 ग्राम / पशु / दिन
फ़ीड के माध्यम से: 1-2 किग्रा / टन फ़ीड
या पशुचिकित्सा सलाहकार द्वारा सलाह दी जाती है।



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	410/- Rs.
1 kg jar	565/- Rs.
5 kg bucket	2010/- Rs.
10 kg bag	3300/- Rs.
20 kg bag	6350/- Rs.

Composition

Each 1kg Contains:	
Vitamin A	7,00,000 IU
Vitamin D3	70,000 IU
Vitamin E	250mg
Nicotinamide	1000mg
Cobalt	150mg
Copper	1200mg
Iodine	325mg
Iron	1500 mg
Magnesium	6000mg
Manganese	1500mg
Potassium	100mg
Sodium	5.9mg
Sulphur	0.72%
Zinc	9600mg
Calcium	33%
Phosphorus	7%

Benefits

1. Improve Milk Yield.
2. Help for Better Growth.
3. Increase Health and Immunity
4. Better Fertility in Females.
5. Better Strength in Bullocks.
6. Enhance Additional Stress Bearing Capacity.

Indications:

Low milk yield Advanced Pregnancy Peak Lactations Repeat Breeders, Young Calves, Poor, Growths, During Antibiotics Treatments etc.

Usage & Administration

In Each Course, Continuously for 7-10 days,
Camel, Horse, Cow & Buffaloes: 30gm/Animal
Calves & Heifer: 15gm/Animal
Goat & Sheep: 10gm/Animal

Goat Kid & Lamb: 5gm/Animal
Swine: 5-10gm/Animal
Through Feed: 1kg-2kg Ton of Feed.
Or as Advised by Veterinarian Consultant

(उपयोग करने की विधि)

लगातार 7-10 दिनों के कोर्स के लिए,
ऊंट, घोड़ा, गाय और भैंस: 30 ग्राम / प्रति पशु
बछड़ों और बछिया: 15 ग्राम / प्रति पशु
बकरी और भेड़: 10 ग्राम / प्रति पशु
बकरी का बच्चा और मेमने: 5 ग्राम / प्रति पशु
सूअर: 5-10 ग्राम / प्रति पशु
चारे के माध्यम से: 1-2 किलो टन चारा।
या पशु चिकित्सा सलाहकार द्वारा निर्देशित है



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	300/- Rs.
5 kg bag	1100/- Rs.
10 kg bag	2125/- Rs.
20 kg bag	3975/- Rs.

Composition

MOS
Bacillus Subtills
Propionic acid
Benzoic acid
Sorbic acid
Activated charcoal
Liver Extract
HSCAS
Silicon Dioxide

Benefits

For Management of Toxins as a Toxin Binder to Control broad Spectrum of Moulds and Toxins in Feed.
High Efficacy towards Polar and non Polar Mycotoxins.

ANFATOX PRO

Effectively Prevents Mould Growth in the Feed.
Improves liver Function and Prevent fatty liver Syndrome.
Selectively Absorbs Toxins and does not Absorbs Vitamins & Minerals in Feed.
MOS helps in removing bad Bacteria by Competitive Exclusion.

Usage & Administration

Regular use :500 gm- 1 kg/ton Feed
Treatment : 2 kg/ton feed
Toxin Binder + Acidifer 2 kg/ton feed
Or as directed by veterinarian / consultant

(उपयोग करने की विधि)

नियमित उपयोग:
500 ग्राम- 1 किलोग्राम / टन फ़ीड
उपचार:
2 किलोग्राम / टन फ़ीड
टॉक्सिन बाइंडर + एसिडिफ़ेर 2 किलोग्राम / टन फ़ीड
या पशु चिकित्सक / सलाहकार द्वारा निर्देशित है।

Anfzyme GOLD

Enzymes And Probiotics



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	640/- Rs.
5 kg pouch	2780/- Rs.
10 kg bag	5500/- Rs.
20 kg bag	10750/- Rs.

Composition

Enzymes:

Pectinase
Fungal Alpha Amylase
Cellulase Acid
Beta Glucoamylase
Xylanase
Phytase Acid with Side
Activity of Cellulase,
Xylanase, Beta Glucoamylase
Glucanase
Protease
Lipase
Beta Glucanase

Probiotics:

Lactobacillus Acidophilus
Saccharomyces Boulardii
Bacillus Subtilis

Benefits

1. Controls the Feed Cost by Providing Flexibility in the Feed Formula
2. Improves Feed Efficiency.
3. Improves Flock & Production Uniformity
4. Reduces Sticky and Loose Droppings Hence Controls Risk of Dirty Eggs, Breast Blisters etc.
5. Improves the Dietary Content of Metabolisable Energy.
6. Improves FCR and Growth
7. Improves Litter Quality

Usage & Administration

Dairy Cattle: 500gm-1.5kg./ton feed.
Beef Cattle: 1-2 kg/ton feed.
Goat & Sheep:
500gm-1kg/ton feed.
Goat kid & Lamb:
250gm-500gm/ton feed.
Pigs: 500gm-2 kg/ton feed
Or as Advised by Veterinarian.

(उपयोग करने की विधि)

दूध देने वाली गाय: 500 ग्राम -1.5 किलोग्राम / टन फ़ीड।
बौफ़ गाय: 1-2 किग्रा / टन फ़ीड।
बकरी और भेड़:
500 ग्राम -1 किलोग्राम / टन फ़ीड।
बकरी का बच्चा और मेमना:
250 ग्राम -500 ग्राम / टन फ़ीड।
सूअर: 500 ग्राम -2 किग्रा / टन फ़ीड
या पशुचिकित्सा सलाहकार द्वारा सलाह दी जाती है।

Neutro CF₂ milk-pro



Pack Size	M.R.P
1 kg pouch	575/- Rs.
1 kg jar	690/- Rs.
5 kg bucket	2840/- Rs.
10 kg bag	5000/- Rs.

Composition

Calcium, Phosphorus, Vitamin D3,
Magnesium, Manganese,
Multi Enzyme complex, Probiotics,
Yeast, Ashwagandha & Shatavari.

Benefits

CATTLE: Enhances Milk Production
in Milch Animals & Prevents Milk Fever.

GOAT & SHEEP: Helps in Muscular &
Skeletal Development.
Improves Growth & Body Weight.
Enhances Diseases Resistance.

Usage & Administration

Cattle & Buffaloes: 30-50gm/Animal/ Day
Calf & Heifer: 15-25gm/Animal/ Day
Goat & Sheep: 7-12gm/Animal/Day
Goat kid & Lamb: 3-6gm/Animal/Day
Through Feed: 1-2 kg/ton of feed
Or as Advised by Veterinarian Consultant

(उपयोग करने की विधि)

गाय और भैंस: 30-50 ग्राम / प्रति पशु
बछड़ों और बछिया: 15-25 ग्राम / प्रति पशु
बकरी और भेड़: 7-12 ग्राम / प्रति पशु
बकरी का बच्चा और मेमने: 3-6 ग्राम / प्रति पशु
चारे के माध्यम से: 1-2 किलो टन चारा।
या पशु चिकित्सा सलाहकार द्वारा निर्देशित है

ANFOTAL[®] NUTRITIONS Private Limited

Innovative Animal Health Care

B-44, Sector-4 Noida UP